

## गरजयुक्त तूफान आपदा प्रतिक्रिया

### पृष्ठभूमि:

गरजयुक्त तूफान भारी वर्षा (जो अचानक आने वाली बाढ़ का कारण बन सकता है), तेज़ हवाएँ, ओलावृष्टि, बिजली एवं बवंडर ला सकता है। गरजयुक्त तूफान कुछ ही घंटों में किसी एक स्थान को प्रभावित कर सकता है, जिससे पेड़ उखड़ सकते हैं, बिजली की लाइनें गिर सकती हैं, बिजली गुल हो सकती है और सड़कों पर भारी मात्रा में मलबा जमा हो सकता है।

सामान्यतः, आपको **चौकसी** और **चेतावनी** के बीच का फ़र्क पता होना चाहिए।

- गंभीर गरजयुक्त तूफान **चौकसी** का अर्थ है गंभीर गरजयुक्त तूफान (58 मील प्रति घंटा या अधिक की रफ़्तार से नुकसानदेह हवा, या एक इंच के तीन चौथाई या अधिक व्यास वाले ओले) गिरने की संभावना है।
- भयंकर गरजयुक्त तूफान **चेतावनी** का अर्थ है कि मौसम के रडार ने गंभीर गरजयुक्त तूफान देखा है या उसका संकेत दिया है।

### गरजयुक्त तूफान चौकसी या चेतावनी की स्थिति में:

- किसी सुरक्षित जगह पर जाएँ, बैटरी चालित रेडियो या टीवी चालू करें और अधिकारियों द्वारा "सब कुछ ठीक है" संकेत की प्रतीक्षा करें।
- लॉन फर्नीचर जैसी घर से बाहर की वस्तुओं को सुरक्षित रखें, जो हवा में दूर उड़ सकती है या क्षति या चोट पहुँचा सकती है और (मौसम सही होने पर) हल्की-फुल्की वस्तुओं को घर के भीतर ले आएँ।
- खिड़कियों के शटर बंद रखें और बाहरी दरवाज़ों पर पट्टी या टेक लगाएँ।
- टेलीफ़ोन और टीवी सहित सभी विद्युत उपकरण बंद करें।
- बाथ टब, पानी के नल और सिंक से दूर रहें, क्योंकि धातु के पाइप बिजली संचारित कर सकते हैं।
- किसी सुरक्षित जगह पर जाएँ, बैटरी चालित रेडियो या टीवी चालू करें और अधिकारियों द्वारा "सब कुछ ठीक है" संकेत की प्रतीक्षा करें।
- लॉन फर्नीचर जैसी घर से बाहर की वस्तुओं को सुरक्षित रखें, जो हवा में दूर उड़ सकती है या क्षति या चोट पहुँचा सकती है और (मौसम सही होने पर) हल्की-फुल्की वस्तुओं को घर के भीतर ले आएँ।
- खिड़कियों के शटर बंद रखें और बाहरी दरवाज़ों पर पट्टी या टेक लगाएँ।
- टेलीफ़ोन और टीवी सहित सभी विद्युत उपकरण बंद करें।
- बाथ टब, पानी के नल और सिंक से दूर रहें, क्योंकि धातु के पाइप बिजली संचारित कर सकते हैं।



कोलम्बिया गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट  
निर्माता:

होमलैंड सेक्यूरिटी एंड एमर्जेंसी मैनेजमेंट एजेंसी (HSEMA)

पिछला संशोधन: नवंबर, 2011



## गरजयुक्त तूफान आपदा प्रतिक्रिया

### यदि घर से बाहर हों

- ❑ किसी इमारत या कार के अंदर जाएँ।
- ❑ यदि कोई भवन संरचना उपलब्ध नहीं है, तो खुली जगह ढूँढ़ें और यथाशीघ्र ज़मीन पर नीचे पालथी मार कर बैठ जाएँ।
- ❑ टावर, ऊँचे पेड़, बाड़, टेलीफोन लाइनें या बिजली की लाइनें जैसी लंबी संरचनाओं से बचें।
- ❑ गोल्फ क्लब, मछली पकड़ने की छड़ या साइकिल जैसे प्राकृतिक तड़ित चालकों से दूर रहें।
- ❑ जल निकायों और बाढ़ प्रवृत्त क्षेत्रों से दूर रहें।
- ❑ तूफान के बाद, गिरी हुई बिजली की लाइनों, पेड़ या अन्य गिरी हुई वस्तुओं को स्थानांतरित करने का प्रयास न करें।

### यदि कार में हों

- ❑ सड़क पर मौजूद पेड़ों से दूर चले जाएँ जिनके वाहन पर गिरने की संभावना हो।
- ❑ कार में रहें और भारी बारिश कम होने तक आपातकालीन लाइटें जलाए रखें।
- ❑ बाढ़ में डूबी सड़क पर ड्राइव करने का प्रयास न करें – आप फँस या धँस सकते हैं। पानी की गहराई हमेशा स्पष्ट नहीं होती है, या सड़क बह सकती है। यदि आप उसे देख नहीं पा रहे हैं, तो आप आश्वस्त नहीं हो सकते कि वह मौजूद है।



कोलम्बिया गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट  
निर्माता:  
होमलैंड सेक्यूरिटी एंड एमर्जेंसी मैनेजमेंट एजेंसी (HSEMA)

पिछला संशोधन: नवंबर, 2011

